


भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(उपचर्या अनुभाग)

लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो ए.एन.एम (ANM) बैच जनवरी 2021 से जून, 2021 तक प्रचार प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

- इस संदर्भ में आवेदन प्रारूप की विस्तृत शर्तें जुड़ी हुई हैं।
- तैनाती की जगह, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल।

कृपया आवेदन नवीनतम CV के साथ दिए गए प्रारूप में इस ई-मेल आई० डी० ladyreadinghealthschool@gmail.com पर 15 नवंबर, 2020 तक भेज दें।



(राकेश कुमार)
उप निदेशक (उपचर्या)

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
रा. अ. कौ नर्सिंग महाविद्यालय, की इकाई लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, नई दिल्ली.
LADY READING HEALTH SCHOOL,
a unit of RAK College of Nursing, New Delhi.

सं 15-1/2020-ले.री.हे.स्कू
No.15-1/ 2020–LRHS.
दूरभाष/ फ़ैक्स 011-23613473
Tel/Fax 011- 23613473

बाड़ा हिन्दू राव, दिल्ली
BARA HINDU RAO, DELHI-110006
दिनांक:
Dated:

सेवा में
To

विषय:- जनवरी 2021से जून2021 सत्र के लिए एएनएम के लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग (पदोन्नती प्रशिक्षण)
Subject:- Promotional Training for ANM from **January , 2021 to June, 2021** Session.

सर/ मैडम,
Sir/Madam,

मुझे यह कहना है की एएनएम के लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग का अगला सत्र **01/01/2021** से शुरू होने जा रहा है। पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

I am to say that the next session for Promotional Training for ANM is scheduled to start from **01/01/2021**. The brief particular of the course are given below:

पाठ्यक्रम का दायरा :- पाठ्यक्रम पाँच वर्ष के अनुभव रखने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए एन एम) को उन्नति के अवसर प्रदान करने एवं बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य प्रयवेक्षक बनाने हेतु बनाया गया है ताकि इससे कार्यकर्ताओं की कमियों को दूर किया जा सके।

Scope of the Course:- The course is designed for providing promotional opportunities for the ANMs in service with five years experience to become Health Supervisors of Multipurpose Workers and to fill up the deficiencies existing for such personnel.

अवधि:- पाठ्यक्रम 6 (छह) महीने की अवधि का है।

Duration :- The Course is of 6 (six) months duration.

- | | | | |
|----------------------|---|---|---------------------|
| (क) योग्यता | - | i) सामान्य शिक्षा : | मैट्रिकुलेशन/ दसवीं |
| (a) Qualification | - | i) General Education : | Matriculation |
| | - | ii) एएनएम किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण। | |
| | - | ii) A.N.M. Training from a recognized Institution. | |
| ख) अनुभव | - | एएनएम के रूप में 5 साल या उससे अधिक अनुभव | |
| b) Experience | - | 5 years or more as ANM | |
| ग) पात्रता | - | केवल प्रायोजित उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। | |
| c) Eligibility | - | Only sponsored candidates are eligible for training. | |
| घ) शारीरिक स्वास्थ्य | - | उम्मीदवार को चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। | |
| | - | (प्रशिक्षण अवधि के दौरान गर्भावस्था की अनुमति नहीं है।) | |
| d) Physical Fitness | - | The candidate should be medically fit. | |
| | - | (Pregnancy during training period is not allowed) | |

P.T.O

ड)	वित्तीयसहायता	-	कोई वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं
e)	Financial assistant	-	No financial assistance in the shape of Scholarship/Stipend will be paid by Central Govt.
च)	आयु सीमा	-	55 वर्ष 01/01/2021 तक
f)	Age Limit	-	upto 55 years as on 01/01/2021

शुल्क: उम्मीदवारद्वाराअग्रिममेंनिम्नलिखितराशि देयहोगी

i)	ट्यूशनशुल्क	:	रु. 100 /-
ii)	क्षेत्रीयकार्य	:	रु. 100 /-
iii)	पंजीकरणशुल्क	:	रु. 05 /-
iv)	परीक्षाशुल्क	:	रु. 15 /-
v)	* जमानत राशि	:	रु. 500 /-

FEES : The following amount will be payable in advance by the candidate

i)	Tuition Fee	:	Rs. 100/-
ii)	Field Work	:	Rs. 100/-
iii)	Registration Fee	:	Rs. 05/-
iv)	Examination Fee	:	Rs. 15/-
v)	* Caution Money	:	Rs. 500/-

(* पाठ्यक्रमकेपूराहोनेपरवापसी योग्य), सामान केनुकसान/होनी यदि कोई हो पर प्रभार घटाने के बाद।

(* Refundable on completion of the Course) after deducting charges on account of loss/damage of articles, if any.)

Hostel Accommodation :-At present due to some administrative problems the hostel facilities are not available.

छात्रावास आवास- वर्तमान मेंकुछ प्रशासनिक समस्याओं के कारण छात्रावासकी सुविधा उपलब्धनहीं है।

यहअनुरोधकियाजाताहैकिनिर्धारित प्रपत्र परआवेदन की अंतिम तिथि 15/11/2020 तकप्रधानाचार्या, ले. री. हे स्कूल, दिल्लीकेकार्यालयमेंभेजेजासकतेहैं।

It is requested that applications on the PRESCRIBED FORM may please be sent latest by **15/11/2020** in the office of Principal, LRHS, Delhi.

कृपयास्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालयकीवेबसाइट /www.mohfw.nic.in परजाएंऔरलेडीरीडिंगहेल्थस्कूलकीवेबसाइट /www.ladyreadinghealthschool.comपर जाएं।

Please visit Ministry of Health's website /www.mohfw.nic.in. and Lady Reading Health School Website /www.ladyreadinghealthschool.com.

प्रधानाचार्या
Principal

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल बाड़ा हिन्दू राव दिल्ली 110006
LADY READING HEALTH SCHOOL
BARA HINDU RAO, DELHI-110006

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
FOR OFFICE USE ONLY

फार्म सं :
Form No. _____
प्राप्ति की तारीख
Date of receipt _____

छात्र की स्थिति : प्रायोजित/गैर-प्रायोजित
Student Status : Sponsored/Non-sponsored

आरक्षण श्रेणी : हाँ/नहीं - अ जा /अ जंजा
Reserved Category : Yes/No - SC/ST

शैक्षणिक योग्यता
Educational Qualification :

व्यवसायिक योग्यता
Professional Qualification :

पंजीकरणसंख्या
(राज्यउपचर्यापरिषद)
Registration Number :
(State Nursing Council)

पेशेवर अनुभव
Professional Experience :

आवेदन की स्थिति : पूरा _____ अधूरा
Application Status : Complete _____ Incomplete

पात्र : हाँ नहीं _____
Eligible : चयनित / प्रतिकार्य / चयनित नहीं
Yes _____ No
Selected/Waiting/Not Selected

जांचकर्ता के हस्ताक्षर
Signature of the Scrutinizer

आवेदन फार्म के लिए

APPLICATION FORM FOR

ए एन एम के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए प्रवेश सत्र - जनवरी,2021 से जून2021.

ADMISSION TO THE PROMOTIONAL TRAINING FOR A.N.M. SESSION

January 2021 to June 2021.

1. नाम श्रीमती/सुश्री : _____
(ब्लॉक अक्षरों में)
1. Name:Mrs./Miss. : _____
(In Block Letters)
- 2 पति / पिता का नाम : _____
2. Husband's/Father's Name : _____
3. जन्म तिथि : तिथि माह वर्ष
3. Date of Birth :

--	--

--	--

--	--	--	--

(Proof to be attached) Date Month Year
4. विवाहित/एकल/विधवा : _____
4. Married/Single/Widow
5. क्या अ.जा /अ जजा से संबंधित है : _____
(सबूत संलग्न होना है)
5. Whether belongs to SC/ST : _____
(Proof to be attached)
6. स्थाई पता/Permanent Address : _____
7. पत्राचार के लिए पता : _____
(पिन कोड नंबर के साथ)
7. Address for Correspondence : _____
(with Pin code number)
8. काम करने का वर्तमान पतास्थान : _____
8. Present Address of working Place
9. टेलीफोन/मोबाईल नंबर : _____
9. Tel./Mobile Number : _____
10. ए) शैक्षणिकयोग्यता/व्यावसायिक योग्यता : _____
बी) व्यावसायिक योग्यता : _____
10. A) Educational Qualification : _____
B) Professional Qualification : _____

नई पासपोर्ट
साइज़ सत्यापित
फोटोचिपकाए

Latest
Attested
Passport Size
Photograph to
be fixed

Cont..2

प्रशिक्षण का नाम Name of Training	संस्था का नाम Name of Institution	सरकारी Govt.	निजी Private	अवधि के प्रशिक्षण से लेकर Period of Training		प्राप्तांक (प्रतिशत में) %-age of marks obtained
				From	To	

11. अनुभव/Experience:-

क्र. सं. S.No.	आयोजित पद का नाम Post Held	संस्था का नाम Name of Institution	से लेकर From To		अनुभव के वर्ष साल महिना Years of Experience Years Month	

12. ए एन एम के रूप में पंजीकृत : हाँ नहीं
12. Registered as A.N.M.If yes:-अगर हाँ : YES NO
- पंजीकरण परिषद का नाम : _____
- Name of Registering Council
- पंजीकरण क्रमांक/Registration No. : _____
13. सदस्यता संख्या / Membership No of : _____
13. व्यवसायिक संगठन (टी एन ए आई)
Professional Organization (TNAI) : _____
14. स्थानीय संरक्षक का नाम पता और टेलीफोन नंबर : _____
- यदि कोई है तो।
14. Name, Address & Telephone No. : _____
- of local guardian, if any

दिनांक

Dated :

ध्यान दें

NOTE:-

कृपया अपने शैक्षिक, व्यवसायिक, पंजीकरण और अनुभव प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।

- Please enclose attested copies of your Educational, Professional, Registration and Experience Certificate.
- मेडिकल सर्टिफिकेट (मेडिकल परीक्षा फार्म)
- Medical Certificate (Medical Examination Form)
- यदि अ जा /अ जंजा श्रेणियों से संबंधित है तो जाति प्रमाणपत्र।
- Caste Certificate in case if belongs to SC/ST categories.
- आवेदन पत्र उचित चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- Application Form should be submitted through proper channel.

स्वास्थ्य परीक्षा फार्म

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

Signature of the Candidate

MEDICAL EXAMINATION FORM

नाम : _____ आयु : _____ वर्ष
Name : _____ Age: _____ Years
पता : _____
Address : _____

पारिवारिक इतिहास किसी भी परिवार के सदस्यों को नहीं था

Family History : Have any applicant's family members had :-

- (अ) क्षय रोग _____
(a) Tuberculosis _____
(ब) मधुमेह _____
(b) Diabetes _____
(स) तंत्रिका या मानसिक विकार _____
(c) Nervous or mental disorders _____

व्यक्तिगत इतिहास में आवेदक को निम्न में से किसी से भी सामना करना पड़ा यदि ऐसा है तो

Personal History : Had applicant even suffered from any of the following, if so when:-

- क) टी.बी. _____
a) Tuberculosis : _____
ख) कार्डियो रोग, अस्थमा _____
b) Cardio Diseases, Asthma : _____
ग) गेस्ट्रो आंत्र विकार _____
(अपेंडिसिटीस। गैल पत्थर आदि)
c) Gastro Intestinal disorders : _____
(Appendiciti, Gall stone etc.)
घ) मानसिक या घबराहट दिव्यांगता _____
d) Mental or nervous disabilities : _____
ड) गठिया _____
e) Arthritis : _____
च) रूमेटिक बुखार _____
f) Rhecumatic fever : _____
छ) मधुमेह/Diabetes _____
ज) पीलिया / Jaundice : _____
झ) टाईफाइड /Typhoid : _____

आवेदक को कब आखिरी टीकाकरण किया गया

When was the applicant last

- अ) टाईफाइड के खिलाफ टीकाकरण _____
a) Inoculated against typhoid : _____
ब) हैजा के खिलाफ टीकाकरण _____
b) Immunized against Cholera : _____

शारीरिक परीक्षण
PHYSICAL EXAMINATION

सामान्य विकास
GENERAL DEVELOPMENT

वजन _____ ऊंचाई _____
Weight _____ Height _____

आसन _____
Posture _____

त्वचा _____ खून की कमी _____
Skin _____ Anemia _____

वजन मे हाल ही मे हुआ कोई भी बदलाव
Any recent changes in weight _____

नैदानिक परीक्षण
Clinical Examination

1. आंखे दृष्टि दाईं आँख _____
बाईं आँख _____
1. Eyes _____ Sight : Right Eye _____
Left Eye _____
2. कान सुनना
2. Ears _____ Hearing : _____
3. दांतों की दशा
3. Condition of teeth : _____
4. टॉसिल और ऐडिनॉइड
4. Tonsils and Adenoids : _____
5. फेफड़े
5. Lungs : _____
6. हृदय
6. Heart : _____
7. पल्स दर रक्तचाप
7. Pulse Rate _____ Blood Pressure _____
8. उदर
8. Abdomen
अ) जिगर ब) हर्निया स) प्लीहा
a) Liver _____ b) Hernia _____ c) Spleen _____
9. ग्रंथिया (टाइफाइड-कारविक)
9. Glands (Typhoid-Cervical) : _____
10. वारीकोज नसे
10. Varicose veins : _____
11. पैरों की असमान्यताएं
11. Abnormalities of feet : _____

12. मूत्र विश्लेषण
12. Urine Analysis:
- | | |
|---------------|-----------------|
| रंग | विशेष क्यू .आर. |
| Colour _____ | Sp. Qr. _____ |
| अलबुमिन | शुगर |
| Albumin _____ | Sugar _____ |
13. मामले
13. Cases : _____
14. रक्त एच बी
14. Blood H.B. : _____
15. कृपया बताएं
15. Please indicate:
- (ए) माहवरी नियमित है _____
(a) Is the menstruation regular _____
- (बी) क्या यह कार्य के साथ हस्तक्षेप करता है _____
(b) Does it interfere with the work _____
- (सी) क्या वह गर्भवती है (शादी के मामले में) _____
(c) Is she pregnant (in case of married) _____
16. क्या आपके लिए ज्ञात कोई भी तथ्य आवेदक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली या पूर्ववर्ती परीक्षा में नहीं लाया गया है।
16. Are any facts known to you not brought in the foregoing Examination affecting or likely to affect the health of the applicant.

17. टिप्पणियां, यदि कोई भी
17. Remarks, if any _____

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Medical Officer
Registration No. _____

पंजीकरण क्रमांक:
Address _____
